

नई नियंत्रित नीति पर कैबिनेट की मुहर

यूपी के हर जिले में बनेंगे क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, कृषि क्षेत्र में नियंत्रित को मिलेगा बढ़ावा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। नियंत्रित के क्षेत्र में विकास व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रित नीति उत्तर प्रदेश : 2020-25 को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र बनाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में नियंत्रित बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। इस नीति के तहत फोकस क्षेत्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं।

इस नीति के प्रमुख उद्देश्य नियंत्रित सहायक संस्थाओं को मदद व सेवा प्रदान करना, तकनीकी और भौतिक ढांचागत सुविधाओं की स्थापना एवं विकास, उद्योगों की नियंत्रित सामर्थ्य में वृद्धि और स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों को चिह्नित करना है। साथ ही नियंत्रित प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत पात्र इकाइयों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा।

नियंत्रित नीति के फोकस क्षेत्र

हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम एंड टैक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरियां, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, आईटी, आईटीएस, मेडिकल वैल्यु, ट्रैवल्स, लॉजिस्टिक।

नियंत्रित अवस्थापना योजना से सुविधाओं का विकास

नियंत्रित नीति में पात्र इकाइयों को दी जाने वाली सुविधाओं व अन्य सहायक क्रिया-कलापों पर होने वाला व्यय बजट में प्रावधानित राशि की सीमा के अंतर्गत रखा जाएगा। हर जिले में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य उत्तर प्रदेश नियंत्रित अवस्थापना विकास योजना के लिए प्रावधानित राशि से दी जाएगी।

किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक

यह नीति किसानों की आय को दोगुना करने व कृषि क्षेत्र से नियंत्रित को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित सभी क्रिया-कलापों को समाहित कर सकेगी। उत्तर प्रदेश नियंत्रित प्रोत्साहन नीति-2020 के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र से नियंत्रित को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से उन सभी अवयवों को भी स्वीकार कर सकेगी, जो उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति के दायरे में नहीं आते हैं।

नीति के तहत पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए ई-हाट पोर्टल विकसित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियंत्रित इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की

पोर्टल से होगी पशुओं की खरीद-बिक्री

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ सेवाएं लेने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों, युवाओं को रोजगार, नियंत्रित वृद्धि और नियंत्रित परक प्रोत्साहन माहौल तैयार होगा।